

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020—फाल्गुन 23, शक 1941

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. 68-पीएसजी-आरएमपी-2020.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रि-परिषद् के निम्नलिखित मंत्रियों को मंत्रि-परिषद् से तत्काल प्रभाव से पृथक् कर दिया है:—

मंत्री

1. श्रीमती इमरती देवी
2. श्री तुलसी सिलावट
3. श्री गोविंद सिंह
4. श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया
5. श्री प्रद्युमन सिंह तोमर
6. डॉ. प्रभुराम चौधरी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर दुबे, राज्यपाल के सचिव.